Date: 14.02.2022 Place: New Delhi

PS

ed

21

d)

116

73 .66

.61

40

64

17

the

rthe

ting

d in

as

ther

ited

-ock

TED

Deepak Arneja (Chairman cum Managing Director & CEO) DIN: 00006112

LANDMARK DALMIAGROUP

Landmark Property Development Company Limited

REGD. OFFICE: 11 TH FLOOR, NARAIN MANZIL, 23, BARAKHAMBA ROAD, NEW DELHI-110 001 Phone: (011) 43621200 FAX: (011) 41501333

CIN - L13100DL1976PLC188942 Email: info@landmarkproperty.in Website: www.landmarkproperty.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2021

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Quarter ended 31/12/2021 (Unaudited)	Quarter ended 30/09/2021 (Unaudited)	Quarter ended 31/12/2020 (Unaudited)	Nine months ended 31/12/2021 (Unaudited)	Nine months ended 31/12/2020 (Unaudited)	Year Ended 31st March, 2021 (Audited)
Total income	21.65	57.75	55.92	101.56	132.16	187.61
Net Profit / (Loss) for the period (before tax & Exceptional items)	11.68	12.02	15.82	36.05	. 39.82	53.35
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	11.68	12.02	15.82	36.05	39.82	53.35
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	8.71	9.12	11.36	27.15	29.41	40.08
Total Comprehevnsive Income for the period (comprising profit/(Loss) for the period (after tax and other Comprehensive income (after Tax)	8.71	9.12	11.36	27.15	29.41	40.12
Equity Share Capital	1,341.43	1,341.43	1,341.43	1,341.43	1,341.43	1,341.43
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	140	or que son	osms da			4,861.66
Earning Per Share (Face Value of Re 1 each) (not annualised) Basic : Diluted :	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	

Note: There were no exceptional items during the Quarter and Nine months ended 31st December, 2021.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Nine Months ended Financial Results filed with the Stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) regulations, 2015, as amended. The full format of the Quarterly and nine month ended Financial Results is available on the stock exchanges websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the company's website www.landmarkproperty.in

The above results for the Quarter/Nine month ended 31st December, 2021 has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on February 14, 2022. The Statutory Auditors have expressed an unmodified opinion on the aforesaid results.

The financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified in the companies (Indian Accounting Standards), Rules 2015 (as amended) under section 133 of the Companies Act' 2013 (The accounting principal generally accepted in India)

For Landmark Property Development Company Limited

Sd/-

Gaurav Dalmia

(Chairperson and Managing Director)

Place : New Delhi

Dated: 14th February, 2022

New Delhi

(Exceptional and/ Net Profit / (Loss) Exceptional and/o

Net Profit / (Loss) Exceptional and/o

Total Comprehens [Comprising Profit and Other Compri and Minority Inter

Equity Share Capi Reserves (excluding in the unaudited B

Earnings Per Sha (for continuing a Basic Diluted

Key Standalone

Particulars

Total income from Profit before tax Profit after tax

Notes:

The above Nine Month Exchanges Requiremen results along and on Con

The above r principles of by the com under secti and policies Previous y

necessary therefore si

Place: New Del Date: 14.02.20: For and on behalf of the Board of R R Financial Consultants Limited

Rajat Prasad Managing Director DIN: 00062612 Place: New Delhi

Date: February 12, 2022

Place: New Delhi Date: 14.02.2022

लैण्डमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, नारायण मंजिल, 23, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001

दूरभाष नं. : (011) 43621200 फैक्स : (011) 41501333

सीआईएन : L13100DL1976PLC188942 ई-मेल : info@landmarkproperty.in

31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(रु. लाख में)

.) विवरण	समाप्त तिमाही 31/12/2021 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त तिमाही 30/09/2021 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त तिमाही 31/12/2020 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त नौमाही 31/12/2021 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त नौमाही 31/12/2020 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021 (लेखांपरीक्षित)
कुल आय	21.65	57.75	55.92	101.56	132.16	187.61
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर एवं असाधारण मदों से पूर्व)	11.68	12.02	15.82	36.05	39.82	53.35
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	11.68	12.02	15.82	36.05	39.82	53.35
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	8.71	9.12	11.36	27.15	29,41	40.08
अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	8.71	9.12	11.36	27.15	29.41	40.12
इक्विटी शेयर पूंजी	1,341.43	1,341.43	1,341.43	1,341.43	. 1,341.43	1,341.43
आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर जैसा कि गत वर्ष के तुलन-पत्र में प्रदर्शित है)	(che					4,861.66
आय प्रति शेयर (अंकित मूल्य रु. 1/- प्रति) (वार्षिकीकृत नहीं)		n + Work -				- 461.084
मूल डाइल्युटेड	0.01	0.01 - 0.01	0.01	0.02	0.02	0.03

टिप्पणी: 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही के दौरान कोई विशिष्ट मद नहीं हैं।

उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा), 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल की गई तिमाही तथा नौमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही तथा नौमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईट www.nseindia.com तथा www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट www.landmarkproperty.in पर उपलब्ध है।

31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही/नौमाही के उपर्युक्त परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गयी और 14 फरवरी, 2022 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गयी। सांविधिक लेखापरीक्षकों उपर्युक्त परिणामों पर अपरिष्कृत विचार व्यक्त किये हैं।

ये वित्तीय परिणाम कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक), नियम 2013 (यथा संशोधित) में निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) (भारत में सामान्यतः स्वीकृत प्रधान लेखांकन) के अनुरूप तैयार किये गये हैं।

लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड के लिए

हस्ता./-

गौरव डालमिया

(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 14 फरवरी, 2022

स्थान : नई तिथि : 14-

31,12,2021 अलेखापरीक्षित 1,375.00 817.00

245.00

209.00

(3,107.00)

1,095.00

नोटस:

1.91

अलेखा

मत व्यव ये पृथव

धारा 13

पूर्व तिग

के सार्व

विनिया

आवश्य

प्रस्तावि

FINANCIAL EXPRESS

SUVIDHAA INFOSERVE LIMITED

(CIN: L72900GJ2007PLC109642)

Registered Office: Unit No 02, 28th Floor, GIFT-II Building, Block No. 56, Road-5C, Zone-5, Gift City Gandhinagar 382355 Corporate Office: 14, Olympus Industrial Estate, Off Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai 400093 Tel.: + 91 9223225225 E-mail: cs@suvidhaa.com Website: www.suvidhaa.com

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 31ST DECEMBER, 2021

(Rupees in million, except per share data and if otherwise stated)

Sr. No.	Particulars		Standalone		Consolidated			
		Quarter ended on	Nine Month ended on	Quarter ended on	Quarter ended on	Nine Month ended on	Quarter ended on	
3		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited	
		31/12/2021	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2020	
1	Total Income	76.5	297.5	175.0	88.8	948.9	192.7	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Depreciation,Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	18.2	50.7	49.1	42.0	63.0	66.0	
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(16.7)	6.4	3.8	7.1	15.2	20.7	
4	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(16.3)	9.4	3.8	7.4	18.2	20.7	
5	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(16.3)	9.4	3.8	7.4	18.2	20.7	
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(16.3)	9.8	3.8	7.4	18.6	20.7	
7	Paid-up equity share capital (Face Value of the share Re. 1/- each)	203.3	203.3	203.3	203.3	203.3	203.3	
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		-				2	
9	Earnings Per Share (Face value of Rs.1/- each) (for continuing and discontinued operations) -							
	1. Basic:	(80.0)	(0.26)	0.02	0.04	(0.20)	0.10	
	2. Diluted:	(0.08)	(0.26)	0.02	0.04	(0.20)	0.10	

- The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of the Company at www.suvidhaa.com
- The above Financial Results are reviewed and recommended by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors at their meeting held
- The exceptional item for the quarter ended 31st December, 2021 and nine months ended 31st December, 2021 is on account of settlement of insurance

For, Suvidhaa Infoserve Limited

Date: 14th February, 2021 Place: Mumbai

Naresh Sharma Managing Director



EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2021 (Unaudited) (₹ in Lakhs)

		Consolidated								
Sr.	Particulars		Quarter Ended	i	Nine N	Year Ended				
No.	Faiticulais	31-12-2021	30-09-2021	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020	31-03-2021			
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited			
1	Total Income From Operations	4,400.44	4,478.00	3,990.02	12,753.38	11,431.23	17,913.66			
2	Net Profit / (Loss) before Tax	49.33	49.19	236.18	191.76	867.57	1,243.37			
3	Net Profit / (Loss) after Tax	38.13	33.93	177.56	140.28	645.95	904.57			
4	Total Comprehensive Income for the Period (Comprising of Profit After Tax and Other Comprehensive Income After Tax)	197.38	43.36	180.65	318.37	663.85	925.82			
5	Paid-up equity share capital	1,007.58	1,007.58	1,007.58	1,007.58	1,007.58	1,007.58			
6	Reserves (Excluding Revaluation Reserves & Government Grant)	5,496.72	5,299.33	4,956.68	5,496.72	4,956.68	5,198.50			
7	Earnings Per Share (EPS) not annulized (FV. Rs. 2/- each)		*				55			
	Basic & Diluted (in Rs.)	0.39	0.09	0.36	0.63	1.32	1.84			
	See accomplying note to the Financial Results									

Note: (1) The above Unaudited Consolidated Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 14th February, 2022. The statutory auditors of the company have carried out limited review of the financial results for the nine months and quarter ended 31st December, 2021.(2) The Above Financial Results have been prepared in accordance with the applicable Indian Accounting Standards as prescribed u/s. 133 of the Companies Act, 2013 read with rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.

(3) Standalone Financial Results as on 31st December, 2020 are as under:

(₹ in Lakhs)

		Standalone								
Sr. No.	Particulars		Quarter Ended	i	Nine N	lonths	Year Ended			
	raidculais	31-12-2021 Unaudited	30-09-2021 Unaudited	31-12-2020 Unaudited	31-12-2021	31-12-2020 Unaudited	31-03-2021			
					Unaudited		Audited			
1	Total Income From Operations	4,400.44	4,478.00	3,990.02	12,753.38	11,431.23	17,913.66			
2	Net Profit / (Loss) before Tax	49.33	49.19	236.18	191.76	867.57	1,243.37			
3	Net Profit / (Loss) after Tax	38.13	33.93	177.56	140.28	645.95	904.57			
4	Total Comprehensive Income for the Period (Comprising of Profit After Tax and Other Comprehensive Income After Tax)	38.40	32.16	178.55	145.47	658.02	913.61			

(4) The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the guarter and nine months ended 31st December, 2021 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results for the quarter and nine months ended 31st December, 2021 are available on the Company's website at www.captainpolyplast.com and on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com. (5) Previous periods / years' figures have been re-grouped / re-classified, where necessary to make it comparable with the current period.

Date: 14-02-2022

financialem.epam.in

Place: Rajkot

For, CAPTAIN POLYPLAST LTD Sd/-Ramesh D. Khichadia (Managing Director) (DIN - 00087859)

CAPTAIN POLYPLAST LTD.

e-mail: info@captainpolyplast.in | web: www.captainpolyplast.com | CIN NO.: L25209GJ1997PLC031985



RCI INDUSTRIES & TECHNOLOGIES LIMITED

Regd. Off.: Unit No. 421, 4th Floor, Pearl Omaxe, Netaji Subhash Place, Pitampura Delhi-110034 CIN No.: L74900DL1992PLC047055, Phone: 011-41681824, Email:compliance@rciind.com Website: www.rciind.com EXTRACT OF UN-AUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2021

				Standalo	ne		Consolidated					
SI No		C	Quarter Ende		Nine Months Ended	Year ended	C	Quarter Ende		Nine Months Ended	Year ended	
		31.12.2021 Unaudited		31.12.2020 Unaudited	13/20/20 07/2007 120/2007	The second secon	2.00.0770000000		31.12.2020 Unaudited	A CONTROL MARKET CO.	The second second second second second	
1	Total Income from operations	1,335.76	1,253.57	1,777.03	5,043.72	6,880.22	1,335.76	1,253.58	1,773.82	5,043.72	7,079.95	
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(1,265.66)	(2,233.05)	(893.15)	(3,851.36)	(9,224.97)	(1,267.28)	(2,233.05)	(2,678.88)	(3,853.62)	(15,865.69)	
3	Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(1,265.66)	(2,233.05)	(893.15)	(3,851.36)	(9,224.97)	(1,267,28)	(2,233.05)	(2,678.88)	(3,853.62)	(15,865.69)	
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(1,244.17)	(2,272.56)	(898.13)	(3,842.60)	(9,054.60)	(1,245,79)	(2,272.55)	(2,683.85)	(3,844.86)	(15,695.32)	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	(1,241.38)	(2,269.76)	(896.27)	(3,834.21)	(9,043.41)	(1,241.14)	(2,270.38)	(2,723.94)	(3,844.86)	(15,878.58)	
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each)	1,567.64	1,567.64	1,567.64	1,567.64	1,567.64	1,567.64	1,567.64	1,567.64	1,567.64	1,567.64	
7	Earnings per Share(of Re 1/- each) for continuing and		\$							-		
, — X	discontinued operations)- (a) Basic (b) Diluted	(7.94) (7.94)	(14.50) (14.50)	35 (53)	(24.51) (24.51)	(57.76) (57.76)	D 030000000	2 STORES	A	3 (350.00200)	30.000.000	

Date: 14.02.2022

Place: New Delhi

- 1 The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Standalone & Consolidated Financial Results for the guarter and Nine Months ended 31st December, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Regulations, 2015. The full format of the Un-Audited Financial Result for the quarter and Nine Months ended 31st December, 2021 are available on the websites of the Stock Exchange; www.bseindia.com and on the Company's website; www.rciind.com. 2. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on 14th February, 2022.
- 3. During the year ended March 31, 2020, all the lenders to Company has declared the account as non performing assets (NPA) due to non payment of interest due and borrowed amount. The parent company restructuring plan is under consideration of the consortium lenders and as proposed by the company, partial infudion of fund amounting to Rs. 16.5 crore has been made in financial year ended March 31, 2021.

4. Figures for the previous period have been re-grouped/rearranged/restated wherever necessary to make them comparable with those of the current period.

For and on behalf of the Board of Directors FOR RCI Industries and Technologies Limited

Rajeev Gupta Managing Director DIN -00503196

WINRO COMMERCIAL (INDIA) LIMITED CIN: L51226MH1983PLC165499

Regd. Office: 209-210, Arcadia Building, 195, Nariman Point, Mumbai - 400 021 Tel.: 022-40198600, Fax: 022-40198650; Website: www.winrocommercial.com; Email: winro.investor@gcvl.in

Statement of Unaudited Standalone & Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine months ended December 31, 2021 (Rs in Lakhs except Sr. No.6)

Sr.	Particulars		Standalor	ne	Consolidated				
No.		Quarter	Ended	Nine Months Ended	Quart	Nine Months Ended			
		Dec 31, 2021	Dec 31, 2020	Dec 31, 2021	Dec 31, 2021	Dec 31, 2020	Dec 31, 2021		
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)		
1)	Total Income	169.42	2,826.13	3,122.30	169.42	2,826.13	3,122.30		
2)	Net Profit before tax #	25.40	2,725.04	2,769.88	25.40	2,725.04	2,769.88		
3)	Net profit / (loss) after tax #*	26.20	2,035.52	2,022.00	(176.90)	3,897.85	4,510.35		
4)	Total Comprehensive income {Comprising net profit / (loss) (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)}*	3,465.95	6,526.27	14,729.86	3,171.00	11,992.43	22,126.97		
5)	Equity Share Capital (Face value of Rs 10/- each)	125.25	125.25	125.25	125.25	125.25	125.25		
6)	Earning per Share (of Rs 10/- each) (a) Basic (not annualised) (b) Diluted (not annualised)	2.09 2.09	162.51 162.51	161.43 161.43	(14.12) (14.12)	311.20 311.20	360.10 360.10		

The Company does not have Exceptional / Extraordinary items to report for the above periods. * The above figures for consolidated financial results includes share of net profit/(loss) and share of other comprehensive income in Associates

accounted for using equity method.

1) The above unaudited financial results for the guarter and nine months ended December 31, 2021 have been reviewed by the Audit committee

and on its recommendation, have been approved by the Board of Directors at its meeting held on February 14, 2022. 2) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2021 filed with the

Stock Exchanges under the Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation, 2015, as amended. The full format of the said 'Financial Results' are available on the website of Stock Exchange "www.bseindia.com." and on Company's website "www.winrocommercial.com."

For and on behalf of the Board of Directors Hetal Khalpada

Director

DIN: 00055823

Date : February 14, 2022 Place: Mumbai

LANDMARK

Landmark Property Development Company Limited

REGD. OFFICE: 11 TH FLOOR, NARAIN MANZIL, 23, BARAKHAMBA ROAD, NEW DELHI-110 001 Phone: (011) 43621200 FAX: (011) 41501333

CIN - L13100DL1976PLC188942 Email: info@landmarkproperty.in Website: www.landmarkproperty.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2021 /Pe In Lakhe

(Rs. In Laki											
Particulars	Quarter ended 31/12/2021 (Unaudited)	Quarter ended 30/09/2021 (Unaudited)	Quarter ended 31/12/2020 (Unaudited)	Nine months ended 31/12/2021 (Unaudited)	Nine months ended 31/12/2020 (Unaudited)	Year Ended 31st March 2021 (Audited)					
Total income	21.65	57.75	55.92	101.56	132.16	187.61					
Net Profit / (Loss) for the period (before tax & Exceptional items)	11.68	12.02	15.82	36.05	39.82	53.35					
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	11.68	12.02	15.82	36.05	39.82	53.35					
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	8.71	9.12	11.36	27.15	29.41	40.08					
Total Comprehevnsive Income for the period (comprising profit/(Loss) for the period (after tax and other Comprehensive income (after Tax)	8.71	9.12	11.36	27.15	29.41	40.12					
Equity Share Capital	1,341.43	1,341.43	1,341.43	1,341.43	1,341.43	1,341.43					
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)						4,861.66					
Earning Per Share (Face Value of Re 1 each) (not annualised) Basic :	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03					
Diluted :	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03					

Note: There were no exceptional items during the Quarter and Nine months ended 31st December, 2021. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Nine Months ended Financial Results filed with the Stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) regulations, 2015, as amended. The full format of the Quarterly and nine month ended Financial Results is available on the stock exchanges websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the company's website www.landmarkproperty.in

The above results for the Quarter/Nine month ended 31st December, 2021 has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on February 14, 2022. The Statutory Auditors have expressed an unmodified opinion on the aforesaid results.

The financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified in the companies (Indian Accounting Standards), Rules 2015 (as amended) under section 133 of the Companies Act' 2013 (The accounting principal generally accepted in India)

> For Landmark Property Development Company Limited Sd/-

Place : New Delhi Gaurav Dalmia (Chairperson and Managing Director) Dated: 14th February, 2022







